

## देश को आगे बढ़ाने का काम युवाओं के कंधो पर

By : Editor Published On : 19 Nov, 2019 02:00 PM IST

आई एन वी सी न्यूज़  
रोहतक,

कैप्टन रामकरण व्यायामशाला के कई खिलाड़ियों ने अपने अच्छे प्रदर्शन से बहुत से मैडल जीत कर हरियाणा राज्य की और से कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किये जिसमें आज दिनांक 19 नवम्बर 2019 को एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बतौर मुख्यअतिथि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आईटी विभाग के प्रदेश प्रमुख प्रवीण घुसकानी पहुंच कर मैडल



जितने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और भविष्य में और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया जिस पर पहलवानो ने भी इस बात का समर्थन करते हुए और आगे बढ़ कर अपने देश के लिए खेलने का जोश दिखाया और वही व्यायामशाला के कोच सोमबीर ढाका व मनीष ठाकुर ने बताया की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जोकि आने वाले 29,30 नवम्बर व 1 दिसंबर को पंजाब के जिला जालन्धर में होने जा रही है जिसमें कैप्टन रामकरण अखाडा के 10 खिलाडी भाग लेने जा रहे है जो इस प्रकार है सुनील 72 किलोग्राम ,अमित 77 किलोग्राम ,आवेश 130 किलोग्राम हरियाणा की और से अपनी चुनौती पेश करेंगे, अतुल 82 किलोग्राम दिल्ली से अपनी, माहल 79

किलोग्राम भारतीय सेना से प्रतिनिधित्व करेंगे, राजित 63 किलोग्राम गोवा ,मंजीत 77 किलोग्राम झारखण्ड ,दीपांशु 97 किलोग्राम भारतीय वायुसेना ,रवि 97 किलोग्राम भारतीय रेलवे ,छग्गन मीणा 72 किलोग्राम राजस्थान की और से प्रतिभा दिखाएंगे

इस अवसर पर प्रवीण घुसकानी ने कहा कि कुश्ती भारत के पारंपरिक खेलों में से एक है। आज हरियाणा कुश्ती के लिए देशभर में जाना जाता है। देश को आगे बढ़ाने का काम आप देश युवाओं के कंधो पर है। खेलों में भाग लेने से शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक विकास भी होता है इसलिए युवाओं को खेलों में अवश्य भाग लेना चाहिए खेल लोगों को अपनी क्षमताओं का बेहतरीन इस्तेमाल करने, सहकारी टीम प्रयास का हिस्सा बनने, जीतने और हारने का आनंद एवं कई बार दुख अनुभव करने के बहुत से अवसर उपलब्ध कराते हैं। साथ में खेल में होड़ करना बस मजे की बात होती है। प्रतियोगिता लोगों को अपने जीवन में विपरीत स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करती है और चुनौती और परिवर्तन की सूरत में डटकर मुकाबला करना सिखाती है। उन्होंने कहा कि बच्चे यहां से सीखकर अपने गांव जिले, प्रदेश व देश का नाम रोशन करते हैं।

इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय पहलवान सुनील, देवेन्द्र दलाल, प्रदीप हुड्डा, अतुल सुन्दरपुर, विरेन्द्र रिटौली, संजय हुड्डा किलोई, संजय पहलवान जिंदराण, आवेश जिन्दराण, रोहित बलियाणा, सोमबीर ढाका, कोच राकेश दलाल मौजूद रहे।

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/देश-को-आगे-बढ़ाने-का-काम-यु/>

12th year of news and views excellency

Committed to truth and impartiality

Copyright © 2009 - 2019 International News and Views Corporation. All rights reserved.

---

[www.internationalnewsandviews.com](http://www.internationalnewsandviews.com)